

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 300]

नई दिल्ली, रविवार, अगस्त 31, 1969/भाद्र 9, 1891

No. 300]

NEW DELHI, SUNDAY, AUGUST 31, 1969/BHADRA 9, 1891

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August 1969

S.O. 3481.—Whereas Shri Gopal Swarup Pathak has been elected to be the Vice-President of the Republic of India and has assumed the said office, the said appointment is hereby notified.

[No. 2/10/69-Pub.II]

L. P. SINGH, Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1969

का० भा० 3482.—यतः श्री गोपाल स्वरूप पाठक भारत गणतंत्र के उप राष्ट्रपति चुन लिये गये हैं तथा उन्हींमें पद ग्रहण कर लिया है, अतः उक्त नियुक्ति एतद्वारा अधिसूचित की जाती है।

[सं० 2/10/69-पब्लिक-II.]

लल्लन प्रसाद सिंह, सचिव।

(1209)

